



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 681) पटना, वृहस्पतिवार, 24 नवम्बर 2011

---

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2011

सं0 निग/सारा-4-(पथ)-आरोप -91/10-9633 (एस)—कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या 2 द्वारा पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंतर्गत विभिन्न पथों की जाँच के पश्चात प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत वाजीदपुर-दलसिंहसराय-नरहन-रोसड़ा पथ एवं दलसिंहसराय-कैदराबाद-मालती पथ में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर, सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या 3, समस्तीपुर से विभागीय पत्रांक-7601(एस), दिनांक 05 जून 2008 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य, दिनांक 14 नवम्बर 2008 के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त पथ में प्रयुक्त ईंटों के compressive strength  $88.58 \text{ kg/cm}^2$  ls  $101.01 \text{ kg/cm}^2$  है जिसका औसत  $94.89 \text{ kg/cm}^2$  होता है जो अपेक्षित compressive strength से लगभग 5 प्रतिशत कम है। उक्त अनियमितता के लिए अधि0सं0 14095 (एस) सहपठित ज्ञापांक 14096 (एस), दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर को "निन्दन" (आरोप वर्ष 2006-07) का दंड संसूचित किया गया।

परंतु IRC/MORTH द्वारा कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित मानदंड में अनियमितता के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार Bricks के औसत compressive strength  $105 \text{ kg/cm}^2$  में  $5 \text{ kg/cm}^2$  से अधिक कमी पाये जाने पर वृहद दंड/विभागीय कार्यवाही का प्रावधान है।

तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा उक्त अधिसू 14095 (एस) सहपठित ज्ञापक 14096 (एस), दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा संसूचित दंडादेश को वापस लेते (withdraw) हुए श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत की जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 681-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>